

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2015 (भाद्र 5, 1937)

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

क्र. 19158-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65—मैहर से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण त्रिपाठी ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है।

भगवान्देव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.